

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग
महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय (केंद्रीय) कोलकाता
8, किरण शंकर रॉय रोड, कोलकाता 700001

निविदा का पूर्वावलोकन

निविदा संदर्भ सं०-अभिलेख-1/ एएमसी ऑफ एसीमशीन/2016-17

दिनांक 25/04/2016

निविदा दस्तावेज के जारी होने की तिथि :- 25/04/2016

निविदा दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- 09/05/2016 अपराह्न 3.00 बजे

निविदा खुलने की तिथि एवं समय :- 10/05/2016 अपराह्न 3.00 बजे

निविदा खुलने का स्थान :- महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय (केंद्रीय) कोलकाता
8, किरण शंकर रॉय रोड, जी.आई. प्रेस बिल्डिंग (ईस्ट विंग)
कोलकाता 700001

विषय :- एयर कंडीशनर मशीन्स की वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए निविदा।

निविदा का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

- (क) कार्य का नाम :- महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय (केंद्रीय) कोलकाता में अधिष्ठापित विंडो और स्प्लिट एयर कंडीशनर की संपूर्ण वार्षिक रखरखाव।
- (ख) बिडर्स की पूर्व अर्हता आवश्यकताएँ – निविदा जारी होने के लिए बिडर्स की पात्रता मापदंड का विवरण नीचे दिया जा रहा है।
- प्रतिष्ठित एसी निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत विक्रेता या उनके अधिकृत सेवा प्रदाता भाग लेने के योग्य हैं।
 - कोलकाता में अच्छी तरह से स्थापित सेवा की सुविधा होनी चाहिए।
 - एयर कंडीशनर मशीन्स के एएससी के क्षेत्र में कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। यदि आवश्यकता हुई तो महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय (केंद्रीय) कोलकाता दस्तावेजी प्रमाण के मांग का अधिकार सुरक्षित रखती है।
 - ट्रेड लाईसेंस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - नवीनतम आयकर प्रमाण पत्र प्रतिलिपि तथा पैन कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।

- vi. निविदा प्रपत्र हमारे वेबसाईट pdackolkata.gov.in से दिनांक 25/04/2016 से डाउनलोड किया जा सकता है।
- vii. बंद लिफाफे में सभी दस्तावेजों सहित निविदा स्पीड पोस्ट/हाथ से सुपुर्दगी द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 09/05/2016 अपराह्न 3.00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर एएमसी ऑफ एयर कंडीशनिंग मशीन्स लिखा होना चाहिए। तय समय एवं तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
- viii. निविदा महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय (केंद्रीय) कोलकाता के कार्यालय में दिनांक 10/05/2016 अपराह्न 3.00 बजे खोला जाएगा।

सामान्य नियम एवं शर्तें

1. निविदा केवल कार्यालयीन निविदा प्रपत्र में ही जमा किया जाना चाहिए। यदि किसी अन्य प्रपत्र में जमा किया जाता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
2. सेवा प्रदाता को प्रत्यक्ष सेवा देनी होगी और वे उपठेकेदारों को नियुक्त नहीं कर सकते हैं।
3. 01.06.2016 से 31.05.2017 की अवधि तक संलग्नक-1 में वर्णित 21 (इक्कीस) एसी मशीन, एक एसी विंडो मशीन जो कि विभिन्न क्षमता वाले हैं उनके वार्षिक अनुरक्षण के करार के लिए सील बंद कोटेशन □ मंत्रित किए जाते हैं।
4. किसी भी कार्यदिवस में 10 बजे अपराह्न से 5 बजे शाम तक पूर्व अनुमति लेकर ऐजेंसी स्थान तथा उपकरण का निरीक्षण कर सकती है। स्थान/उपकरण □ दि के प्रति गैर जागरूकता के लिए को अतिरिक्त शुल्क शर्त या बाध्यता स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. निविदा की कोई भूल सुधार को निविदाकर्ता द्वारा सत्यापित होना □ वश्यक है।
6. महानिदेशक लेखापरीक्षा बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या अंशतः खारिज करने का अधिकार है।
7. विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा खारिज कर दिया जाएगा।
8. सभी स्पेयर पार्ट्स जिसमें कम्प्रेसर, गैस चार्जिंग (इनलेट तथा □ उट लेट पाइप से एसी से जुड़े को मशीन का ही भाग माना जाएगा।
9. सावधिक सेवा करार में माह में एक बार सेवा देना शामिल होगा।
10. पूरे करार की अवधि में 22 एसी मशीनों (अनुबंध-1) की निवारक तथा उपचारात्मक अनुरक्षण के लिए अभिलेख-1 अनुभाग को सूचित करते हुए सर्विस इंजिनियर के लिए □ वश्यक इंतजाम करना होगा।
11. अवकाश को छोड़कर सभी ब्रेक डाउन कॉल के 24 घंटे के भीतर सेवा प्रदान करना होगा।

12. ब्रेक डाउन की सेवा पूर्ति का समय 24 घंटे का ही होगा परंतु यदि मशीन को कार्यशाला में मरम्मत के लिए ले जाना हो तथा उसके ठीक होकर आने में 48 घंटे लगे तो एक लोन मशीन उपलब्ध इसके लिए करवाना होगा जो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देना होगा। किसी भी तरह का दुलाई चार्ज नहीं दिया जाएगा।
13. भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा, प्रत्येक तिमाही के पुरे होने पर पूरे करार के एक चौथाई के बराबर भुगतान किया जाएगा।
14. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वेन्डर के हर बिल पर स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।
15. बिडकर्ता को बिना कारण बताए कभी भी 15 दिन पूर्व नोटिस दे कर करार को तोड़ा जा सकता।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (अभिलेख-।)

संलग्नक :- अनुबंध - । एसी मशीन के स्थिति का विवरण

अनुबंध - ॥ निविदा प्रारूप